

हरथला में नकली यौन शक्ति वर्धक दवाएं बनाने वाली फैक्टरी पकड़ी

मुरादाबाद ब्यूरो Updated Wed, 09 Sep 2020 02:57 AM IST



मुरादाबाद के हरथला अम्बेडकर पार्क के सामने ड्रग विभाग का छापा मिली दवाई। - फोटो : CITY

मुरादाबाद। जिला औषधि नियंत्रण विभाग ने मंगलवार को हरथला से एक मकान में छापेमारी कर शक्तिवर्धक नकली दवाएं बनाने वाली फैक्टरी पकड़ी है। फैक्टरी में नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाएं बनाकर बाजार में बेची जाती थीं। विभाग ने फैक्टरी से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत की मशीनें और 20 लाख रुपये की नकली दवाएं जब्त की हैं। कारखाने का एक संचालक फरार है, जबकि एक आरोपी को दबोच लिया है।

जिला औषधि नियंत्रक नरेश मोहन दीपक ने बताया कि शक्तिवर्धक नकली दवाएं बनाने वाली एक कंपनी ने हरथला में अपने ब्रांड नाम की नकली दवाएं बनाने की सूचना दी थी। इस सूचना पर विभागीय जांच की गई। सूचना सही साबित होने पर सिविल लाइन पुलिस की मदद से मंगलवार को स्टेशन रोड, अंबेडकर पार्क के नजदीक एक मकान में छापेमारी की गई। चार मंजिला मकान के प्रथम तल पर दवा बनाने और उनकी पैकिंग करने की मशीनें लगी थी। जबकि तृतीय तल पर तैयार कैप्सूल, जैल और ट्यूब रखी गई थीं।

जिला औषधि निरीक्षक ने बताया कि टीम ने एक आरोपी शानू खान को दबोच लिया। कारखाने का संचालक मो. आसिफ फरार है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि शक्ति वर्धक दवाओं की बाजार में काफी मांग है। ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाएं काफी महंगी हैं। नामी कंपनियों की कॉपी कर नकली दवाएं महंगी कीमतों पर बेचते थे। उनकी नकली दवाएं मुरादाबाद से लेकर यूपी और उत्तराखंड के कई शहरों में सप्लाई की जाती थीं। औषधि निरीक्षक के मुताबिक सिविल लाइन थाने में तहरीर दे दी गई है। कारखाने को सील कर जांच शुरू कर दी है। दवाओं के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। आठ महीने की जेल काटकर आया है फरार आसिफ

मुरादाबाद। जिला औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक के मुताबिक फरार आरोपी आसिफ पांच अक्टूबर 2018 को भोजपुर में नकली यौन वर्धक दवाएं बनाने के आरोप में पकड़ा जा चुका है। आठ माह की जेल काटने के बाद मुरादाबाद हरथला में दो करोड़ का मकान खरीदने के बाद यहां कारखाना लगा दिया। भोजपुर के बहेड़ी ब्रह्मनान में नकली दवाएं बनाने के आरोप में आसिफ आठ महीने की जेल काट चुका है। तब भी करीब 80 लाख कीमत की दवाएं पैकिंग और बनाने वाली मशीनें जब्त की गई थी। जमानत पर रिहा होने के बाद मुरादाबाद में अपना अड्डा बना लिया। मुरादाबाद में दो करोड़ से मकान खरीदा और दवाओं की पैकिंग और दवा बनाने की नई मशीनें लगा ली।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/moradabad/duplicate-sex-power-medicines-stock-sealed-after-rade-in-moradabad-city-news-mbd361977369>